

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति			वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2026		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर 28	मार्च 31	2025-26	2026
	1	2	3	4	5
I. बैंक ऋण (II+III)	18401354	20754078	21361435	16.1	16.1
II. खाद्यान्न ऋण	29357	82643	70271	139.4	139.4
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18371998	20671435	21291163	15.9	15.9
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287060	2543477	2646051	15.7	15.7
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3985660	4447192	4582009	15.0	15.0
2.1 सूक्ष्म और लघु	798473	1031799	1063123	33.1	33.1
2.2 मध्यम	363245	430263	442217	21.7	21.7
2.3 बड़े	2823942	2985130	3076669	8.9	8.9
3. सेवाएं	5093565	5807798	6060802	19.0	19.0
3.1 परिवहन परिचालक	261575	280409	286808	9.6	9.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	46183	45738	39.0	39.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	83366	98895	102559	23.0	23.0
3.4 शिपिंग	7304	10502	10384	42.2	42.2
3.5 विमानन	46072	49830	52688	14.4	14.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	195957	210543	218324	11.4	11.4
3.7 व्यापार	1184550	1320670	1376198	16.2	16.2
3.7.1 थोक व्यापार	646099	737574	775970	20.1	20.1
3.7.2 खुदरा व्यापार	538451	583096	600229	11.5	11.5
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	523264	606612	627341	19.9	19.9
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)2 जिसमें से	1635102	1947584	2065555	26.3	26.3
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	323182	359226	373339	15.5	15.5
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	316124	348838	52.5	52.5
3.10 अन्य सेवाएं3	1123459	1236570	1275208	13.5	13.5
4. व्यक्तिगत ऋण	5971696	6796850	6941339	16.2	16.2
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23201	21925	21962	-5.3	-5.3
4.2 आवास	3010477	3305691	3355980	11.5	11.5
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141842	154183	169107	19.2	19.2
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	10085	10546	4.6	4.6
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	292067	294461	3.5	3.5
4.6 शिक्षा	137456	155590	155850	13.4	13.4
4.7 वाहन ऋण	622793	726037	738680	18.6	18.6
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण4	206284	428578	460313	123.1	123.1
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1535197	1702695	1734440	13.0	13.0
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)					
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां5	2287794	2600490	2654548	16.0	16.0
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम6	2239409	2812171	2900619	29.5	29.5
(iii) मध्यम उद्यम7	601451	692153	708794	17.8	17.8
(iv) आवास	746651	1033416	1043836	39.8	39.8
(v) शिक्षा ऋण	62826	77935	77289	23.0	23.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	13955	13848	34.1	34.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	1221	1486	12.9	12.9
(viii) निर्यात ऋण	12479	10270	11436	-8.4	-8.4
(ix) अन्य	49552	41690	44820	-9.6	-9.6
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1864606	2032409	2071083	11.1	11.1

टिप्पणी : (1) डेटा अनतिम है। बैंक क्रेडिट, खाद्य क्रेडिट और गैर- खाद्य क्रेडिट डेटा हर दो हफ्ते में आने वाले सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्र के हिसाब से गैर-खाद्य क्रेडिट डेटा क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें कुछ खास बैंक शामिल हैं, जो सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य क्रेडिट का लगभग 95 प्रतिशत देते हैं। कॉलम (1) में सेक्शन-42 डेटा (कॉलम I, II और III) के लिए संदर्भ दिनांक 4 अप्रैल 2025 है।

(2) 31 दिसंबर 2025 से, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को माह के अंतिम दिन में बदल दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष विकास दरें चालू वर्ष के महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के इसी महीने के अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3. "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत नहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4. एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।